



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 13, 1977/माघ 24, 1898

No. 32] NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 13, 1977 MAGHA 24, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February 1977

No 22-Pies/77.—At eight-fiftytwo hours on the morning of Friday, February 11, 1977, death came suddenly to Shri Fakhruddin Ali Ahmed 55th President of the Republic of India. A staunch nationalist, an illustrious statesman, he symbolised the best traditions of India's composite culture serving the nation with exemplary dedication for over 45 years.

2 Shri Fakhruddin Ali Ahmed was born on May 13, 1905 in Delhi. After his early education in the Government High Schools at Gonda in Uttar Pradesh and at Delhi, he passed the Matriculation Examination of Punjab University in 1921. He then joined St Stephens' College, Delhi, but he soon proceeded to England, where he was admitted to St Catherine's College of Cambridge University. Shri Fakhruddin Ali Ahmed graduated from Cambridge in 1927 in History Tripos. After completing the Law Course, he was called to the Bar from the Inner Temple in London.

3 On his return to India, he got himself enrolled as an Advocate of the Punjab High Court and later moved to Assam with his father in 1928. Except for a brief period, when he practised in Calcutta, Assam became the centre of his political activities. His intense spirit of nationalism soon overtook his career and in 1931 he became a Member of the Indian National Congress, which was then spearheading the struggle for the liberation of the country under Mahatma Gandhi's leadership. In 1937, he successfully contested the election to the Assam Assembly in the teeth of opposition from those ranged against the national movement.

4 Since 1936, Shri Fakhruddin Ali Ahmed was almost continuously a Member of the Assam Pradesh Congress Committee, Working Committee of the Pradesh Congress Committee and the All India Congress Committee. After the elections to the Provincial Assembly in 1938, he joined the first Congress Cabinet in Assam under the Chief Ministership of Gopinath Bardoloi in 1938-39. He was in charge of Finance and Revenue Departments. His tenure of office in the Bardoloi Cabinet was memorable for some of the radical agrarian measures which he piloted with commendable zeal. Being aware of the plight of poor farmers and in pursuance of the commitment to introduce land reform measures, Shri Fakhruddin Ali Ahmed was instrumental in providing 50 per cent remission in land revenue and initiated measures for the imposition of tax on agricultural income. He brought forward measures to tap alternative sources of revenue. His efforts resulted in augmenting the resources of the State even while affording relief to the peasantry.

5 When the Congress Governments resigned in 1939 on the declaration of the war, Shri Fakhruddin Ali Ahmed also resigned his Ministership. He plunged into the Gandhian movement and offered individual Satyagraha in 1940 under the command of Mahatma Gandhi. He suffered imprisonment for one year.

6 Soon after his release, he was again taken as a security prisoner and was in detention continuously for a period of 3½ years before being released in April, 1945.

7 Although for a brief period he became Advocate-General of Assam in 1946, he was again involved in the nationalist movement, and became a Member of the Congress Working Committee. In 1952-53, he was elected to the Rajya Sabha.

8 In the 1957 General Elections, he was again elected to the Assam Assembly and in the following year, he joined the State Cabinet, holding charge of the portfolios of Finance, Law, Community Development, Panchayat and Local Self Government. He was re-elected to the State Assembly in 1962 and continued to remain a Minister in charge of most of the previous portfolios.

9. He became a Member of the Congress Parliamentary Board in 1964. In 1966, he was again elected to Rajya Sabha and on 29th January, 1966, he became a Member of the Central Cabinet, first in charge of Irrigation and Power and later of Education.

10. In the General Elections in 1967, he was elected to the Lok Sabha from the Barapeta constituency in Assam. On March 13, 1967, he was appointed Cabinet Minister for Industrial Development and Company Affairs.

11 As the Minister of Industrial Development and Company Affairs, he was responsible for evolving a new industrial policy designed to promote accelerated growth, a wider base for small and ancillary industries, paying special attention to backward areas and selective in the matter of foreign collaboration. Another land-mark during his tenure in this Ministry was the piloting of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act.

12 On June 27, 1970, he took over as Union Minister for Food and Agriculture. After the elections to the Lok Sabha in 1971, he was re-assigned the same portfolio.

13. Shri Fakhruddin Ali Ahmed was widely travelled throughout the world. In 1955, he led the Indian Lawyers delegation to the USSR and in 1957, he represented India at the United Nations. In 1964, he paid a visit to the United States and spent about 5 weeks visiting different parts of that country. As a representative of the Government of India, he visited Malaysia in 1965 to participate in the celebrations of their Independence Day and the inauguration of the International Mosque at Kuala Lumpur. In 1970, he visited Australia to attend the Conference of the Food and Agriculture Organisation. He also led the Indian delegation to the Council's Session of FAO in Rome in 1971 and 1973.

14 During the large scale influx of refugees from Bangladesh and the subsequent Indo-Pakistan conflict, Shri Fakhruddin Ali Ahmed visited Lebanon, Iraq and Egypt to explain India's stand and the problems faced by this country in the wake of these developments.

15 Shri Fakhruddin Ali Ahmed was a keen sportsman. He had been the President of the Assam Football Association and Assam Cricket Association for many years and Vice-Chairman of the Assam Sports Council. He was also the President of the All India Lawn Tennis Association. He was connected with many social institutions as well.

16 In August, 1974, he was elected the President of India. In his own words, he assumed this high office in a spirit of prayerful humility and total dedication. He described himself as a humble worker who had done his bit first in the liberation struggle of our country and after independence in the consolidation of the freedom that we won. During the 2½ years he was the Head of the State, his wise guidance and catholic outlook proved to be of immense value to the nation during periods of stress and strain. His vision and adherence to principles, his grace and dignity, his aesthetic sensibility, his understanding and compassion, added a new lustre to the high office he held and earned for him the affection and admiration of all sections of the people.

17 As President of India, Shri Fakhruddin Ali Ahmed undertook an extensive programme of goodwill visits to friendly countries in various parts of the world. Beginning with a State visit to Indonesia after assuming office, he went on similar missions to Hungary, Yugoslavia, Egypt and Sudan in 1975. In the same year he also attended the funeral of the late King Faisal of Saudi Arabia. In 1976, he travelled to Iran and the UAE and, just a few days ago, had embarked on a tour of Malaysia, Philippines and Burma. While in Kuala Lumpur he had to cut short the rest of his tour due to ill health which, with his characteristic courage and devotion to duty, he did most reluctantly. All his travels abroad were inspired by a deep interest in forging greater understanding and closer ties with the outside world. His nobility and simplicity endeared him to the leaders and the peoples of the countries with whom he came in contact and made a significant contribution to the promotion of India's friendship and cooperation with them.

18 Death has taken away a distinguished son of India, a great patriot, an elder statesman and a shining symbol of the composite culture of our country. The country has lost a person of great moral calibre and administrative ability known alike for his deep love for the country and abiding affection for his people.

K. BALACHANDRAN,

Secretary to the President

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1977

सं० 22-प्रेज 77—शुक्रवार 11 फरवरी, 1977 को सुबेरे 8 बज कर 52 मिनट पर भारत गणतन्त्र के पाचवे राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद का अचानक देहांत हो गया। वे पक्के राष्ट्रवादी और उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ तथा भारत की मिली-जुली सस्कृति की श्रेष्ठ परंपराओं के प्रतीक थे और उन्होंने राष्ट्र की अनुकरणीय निष्ठा में 45 वर्ष में अधिक समय तक सेवा की।

2. श्री फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई, 1905 को दिल्ली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोंडा तथा दिल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूलों में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उन्होंने 1921 में पंजाब विश्वविद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वे सेंट स्टीफन्स कालेज, दिल्ली में प्रविष्ट हुए, लेकिन शीघ्र ही वे इंग्लैंड चले गए जहाँ वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कालेज में प्रविष्ट हो गए। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 1927 में कैम्ब्रिज से हिस्ट्री डिग्री में स्नातक की उपाधि ली। विधि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने लंदन के “इनर टैम्पल” में बैरिस्टर की उपाधि ली।

3. भारत वापस आने पर उन्होंने पंजाब उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में अपने को नामांकित करवाया और बाद में वे 1928 में अपने पिता के साथ असम चले गए। उस थोड़े से समय को छोड़कर जबकि उन्होंने कलकत्ता में वकालत की, असम ही उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा। उनकी राष्ट्रीयता की गहन भावना शीघ्र उनकी जीविका के मुकाबले सर्वोपरि हो गई और 1931 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हो गए जोकि उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए संघर्ष का संचालन कर रही थी। 1937 में, उन तत्वों के कड़े विरोध के बावजूद जोकि राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध थे, वे असम विधान सभा के चुनाव में सफल रहे।

4. श्री फखरुद्दीन अली अहमद 1936 में तत्कालीन लगानार असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। प्रान्तीय असेम्बली के 1938 में हुए चुनावों के बाद वे 1938-39 में मुख्य-मंत्री गोपीनाथ बारदोलाई के कार्यकाल में असम के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उनके पास वित्त और राजस्व विभाग थे। बारदोलाई मंत्रिमंडल में उनका कार्यकाल, सराहनीय उत्साह में उनके द्वारा किए गए कुछ व्यापक कृषि सुधारों के लिए स्मरणीय रहा। गरीब किसानों की दशा से परिचित होकर और भूमि सुधार उपाय लागू करने के लिए वचनबद्धता के अनुरूप कार्यवाई करके, भू-राजस्व में 50 प्रतिशत की माफी देने का श्रेय श्री फखरुद्दीन अली अहमद को ही था और उन्होंने कृषि-आय

पर कर लगाने की कार्यवाई क शुरूआत की। उन्होंने राजस्व प्राप्ति के वैकल्पिक स्रोत ढूँढ निकाले। कृषक-वर्ग को राहत देने हुए भी, उनके प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के समाधानों में वृद्धि हुई।

5 युद्ध की घोषणा होने पर, जब 1939 में कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दिया तो श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने भी अपने मन्त्रीपद से त्यागपत्र दे दिया। वे गांधी जी के आन्दोलन में कूद पड़े और उन्होंने 1940 में गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उन्हें एक वर्ष का कारावास मिला।

6 रिहाई के तुरन्त बाद उन्हें फिर सुरक्षा बन्दी बना लिया गया और अप्रैल, 1945 में रिहा किए जाने से पहले वे लगभग 3½ वर्ष तक नजरबन्द रहे।

7 यद्यपि, वे 1946 में थोड़ा समय के लिए असम के एडवोकेट जनरल बन गए, फिर भी वे राष्ट्रीय आन्दोलन में पुनः भाग लेने लगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बन गए। 1952-53 में वे राज्य सभा के लिए चुने गए।

8 1957 के आम चुनावों में, वे असम विधान सभा के लिए पुनः चुने गए और उसके अगले वर्ष वे राज्य मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए और उन्होंने वित्त, विधि, सामुदायिक विकास, पंचायत और स्वायत्त शासन विभाग सम्भाले। 1962 में वे राज्य विधान सभा के लिए पुनः चुने गए और अधिकांशतः अपने पुराने विभागों के ही मंत्री बने रहे।

9. 1964 में वे कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सदस्य बने। 1966 में, वे फिर राज्य सभा के लिए चुने गए और 29 जनवरी, 1966 को वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य बने, पहले उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग का कार्यभार सम्भाला और बाद में शिक्षा विभाग का।

10 1967 के आम चुनावों में, उन्हें असम के बारापेटा निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए चुना गया। 13 मार्च, 1967 को वे औद्योगिक विकास और कपनी कार्य के कैबिनेट मंत्री नियुक्त किये गये।

11 औद्योगिक विकास और कपनी कार्य मंत्री के रूप में एक नई औद्योगिक नीति निर्धारित करने का श्रेय उनको ही है जिसका उद्देश्य तेज़ी से वृद्धि करना, लघु तथा सहायक उद्योगों के लिए अधिक व्यापक आधार को बढ़ावा देना, पिछड़े क्षेत्रों को और विशेष ध्यान देना और विदेशी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना था। इस मन्त्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि एकाधिकार तथा निर्वन्धन-कारी व्यापारी प्रथा अधिनियम का लाना था।

12 27 जन, 1970 को उन्होंने केन्द्रीय खाद्य कृषि मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला। 1971 के लोक सभा के चुनाव के बाद उनको फिर वही विभाग सौंपा गया।

13 श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने व्यापक रूप से विश्व का दौरा किया। 1955 में उन्होंने रूस को गए भारतीय वकील प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1964 में वे अमेरिका गए और वहां लगभग पांच सप्ताह तक रहे। उस दौरान उन्होंने उस देश के अलग-अलग भागों का दौरा किया। भारत सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में वे 1965 में मलेशिया के स्वाधीनता दिवस समारोह तथा कुआला लम्पुर में अन्तर्राष्ट्रीय मस्जिद उद्घाटन में भाग लेने के लिए मलेशिया गए। 1970 में वे खाद्य तथा कृषि मण्डल सम्मेलन में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया गए। 1971 और 1973 में रोम में खाद्य तथा कृषि मण्डल के परिषद के सत्र में भी उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया।

14. बंगलादेश में शरणार्थियों के बहुत अधिक सख्या में आने के समय तथा बाद के भारत-पाक संघर्ष के दौरान हुई घटनाओं के क्रम में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए तथा उसके सम्मुख आई समस्याओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए श्री फखरुद्दीन अली अहमद लेबनान, ईराक तथा मिस्र गए।

15. श्री फखरुद्दीन अली अहमद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वे कई वर्षों तक असम फुटबाल संघ तथा असम क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और असम खेल परिषद् के उपाध्यक्ष रहे। वे अखिल भारतीय लान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे। वे कई सामाजिक संस्थाओं में भी सम्बद्ध रहे।

16. अगस्त, 1974 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उनके अपने ही शब्दों में उन्होंने यह उच्च पद अत्यन्त विनीत भावना तथा पूर्ण निष्ठा से ग्रहण किया। उन्होंने अपने आपको एक ऐसा विनम्र कार्यकर्ता बताया, जिसने पहले तो देश के स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया और स्वाधीनता के बाद उस पाई हुई स्वाधीनता को बनाए रखने में अपना योगदान किया। राष्ट्र के 2½ वर्ष तक अध्यक्ष रहने के दौरान, तनाव तथा कठिनाई के समय उनका लाभदायक मार्गदर्शन तथा मार्वाभौमिक दृष्टिकोण देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उनकी दूर-दृष्टि तथा मिठाती के प्रति निष्ठा, उनकी शालीनता तथा गौरव, कर्तव्य भावना, सूक्ष्मबुद्धि तथा दयालुता ने उनके इस उच्च पद की गरिमा को और बढ़ा दिया और सभी वर्गों के लोगों में वे स्नेह व प्रणाम के पात्र बन गए।

17 भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने विश्व के विभिन्न भागों में स्थित मित्र देशों की सहभावना यात्रा करने का व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया। पद-ग्रहण करने के बाद ट्यूनिशिया की राजकीय यात्रा से शुरू करते हुए, वे इसी प्रकार के उद्देश्यों से 1975 में हंगरी, यूगोस्लाविया, मिश्र तथा सूडान गए। उसी वर्ष उन्होंने सऊदी अरब के स्वर्गीय किंग फैजल की अन्त्येष्टि में भी भाग लिया। 1976 में उन्होंने ईरान तथा य० ए० ई० की यात्रा की और कुछ ही दिन पहले उन्होंने मलेशिया, फिलिपाइन्स तथा बर्मा का दौरा किया था। कुआला लम्पुर की अपनी शेष यात्रा उन्हें

त्रीच में, अस्वस्थता के कारण छोड़नी पड़ी, जोकि अपने विशिष्ट साहस और कर्तव्य-निष्ठा के गुणों के कारण उन्हें अत्यंत अनिच्छा से करना पड़ा। उनकी सभी विदेश यात्राएँ विश्व के अन्य देशों के साथ मेल-मिलाप बढ़ाने और अधिक निकट संबंध कायम करने की भावना से प्रेरित रही। उनकी उदारता व सादगी ने उन देशों के नेताओं तथा लोगों में जिनके संपर्क में वे आए, उन्हें स्नेह का पाव बना दिया और इससे उनके साथ भारत की मित्रता तथा सहयोग बढ़ाने में विशेष योगदान मिला।

18 भारत के एक महान सपूत, महान देशभक्त, बयोवृद्ध राजनेता और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति के ज्वलन्त प्रतीक को मृत्यु ने हम से छीन लिया है। देश ने एक महान नैतिक बल तथा प्रशासनिक योग्यता वाले व्यक्ति को खो दिया है जो गहरे देश-प्रेम तथा लोगों के प्रति अपने अगाध स्नेह के लिए विख्यात थे।

कृ० बालचन्द्रन,

राष्ट्रपति के सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

